



जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07-01-21

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा #गैंगस्टर एक्ट में वांछित 1 अभियुक्त गिरफ्तार -श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान **थाना लोनी बार्डर** पुलिस तलाश वांछित अभियुक्तगण के दौरान दिनांक 07.01.2021 को सुबह अभियुक्त इमरान पुत्र कदीर नि0 मौ0 आजाद कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जो अ0सं0 01/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

इमरान पुत्र कदीर नि0 मौ0 आजाद कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद।

अभियुक्त रोबिन उर्फ टोनी का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 01/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

मु0अ0सं0 98/20 धारा 147/148/149/302/34 भादवि थाना लोनी बार्डर गा0बाद।



थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में मोबाइल लूट करते हुए 02 अभियुक्त रंगे हाथ गिरफ्तार, कब्जे से 1 मोबाइल व 1 मोटरसाईकिल बरामद:-

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में **थाना इंदिरापुरम** पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सै0 05 वसुन्धरा मे मुन्नी कुमारी पुत्री शन्नी प्रसाद निवासी म0न0 212 जे0 ब्लाक 22 सी 19 नौएडा से मोबाइल लूट करते हुए 02 अभियुक्त 1-जितेन्द्र 2- योगेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से लूटा गया 1 मोबाइल (रंग गोल्डन mi कंपनी का) व 1 मोटर साईकिल (यू0पी0 डी एल 13एस डी 6795 -घटना में प्रयुक्त) बरामद की गई।

अपराध करने का तरीका- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग रास्ते में अकेले जा रहे लोगों पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। व लूट के मोबाइल को राह चलते लोगों को कम दाम पर बेच देते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम/पता

1-जितेन्द्र पुत्र मक्खन लाला निवासी गंगन बिहार थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र-20 वर्ष

2- योगेन्द्र पुत्र प्रेम सिंह निवासी गंगन बिहार थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र-19 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 14/2021 धारा 392/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1-1मोबाइल (रंग गोल्डन mi कंपनी का)

2-1 मोटर साईकिल(यू0पी0 17 एस 2332) –(घटना में प्रयुक्त)



मादक पदार्थ बेचने वाला 1 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक-06/01/2021 को शान्ति व्यवस्था / संदिग्ध वाहन व व्यक्ति चैकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत माता चोक अभय खण्ड के पास से 1 किलो 2 सौ ग्राम गांजा के साथ अभियुक्त मानू उर्फ दीपक पुत्र दिलीप निवासी सेन्की त्यागी का मकान थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र -21 वर्ष को गिरफ्तार किया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम/पता

मानू उर्फ दीपक पुत्र दिलीप निवासी सेन्की त्यागी का मकान थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र -21 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 16/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

1 किलो 200 गांजा



थाना कविनगर पुलिस द्वारा वर्ष 2017 से वांछित चल रहे अभियुक्त को किया

गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 07.01.21 को थाना कविनगर के मु0अ0सं0 2006/17 धारा 352/325 भादवि मे वर्ष 2017 से वांछित चल रहे अभियुक्त टीटी पुत्र लीले निवासी शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर ग्राम शाहपुर बम्हेटा कविनगर से गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा वादी अनिल कुमार पुत्र औतार सिंह निवासी चामड वाली गली बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद के साथ मारपीट कर उसको गम्भीर रूप से घायल कर दिया था तथा फरार हो गया था। अभियुक्त करीब 03 वर्ष से उपरोक्त अपराध में वांछित चल रहा था जिसकी थाना कविनगर पुलिस को काफी समय से तलाश थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

टीटी उर्फ नवित पुत्र लीले निवासी शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष शिक्षा 9 वी पास।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1- मु0अ0सं0 2006/17 धारा 352/325 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।



थाना कविनगर पुलिस द्वारा बलात्कार के अपराध में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा जघन्य अपराध के वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 06.01.21 को थाना कविनगर के मु0अ0सं0 1662/20 धारा 376/452/504/506 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त तरुण भारद्वाज पुत्र प्रवीण भारद्वाज निवासी गली नं0 9 बालाजी इन्कलेव गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर आर डी सी फ्लाई ओवर के पास कविनगर से गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा एक महिला का काफी दिनों तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया और उसके उपरान्त किसी अन्य महिला से शादी कर ली, अभियुक्त करीब 1 माह से उपरोक्त अपराध में वांछित चल रहा था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

तरुण भारद्वाज पुत्र प्रवीण भारद्वाज निवासी गली नं0 9 बालाजी इन्कलेव गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष शिक्षा 12वी पास।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1- मु0अ0सं0 1662/20 धारा 376/452/504/506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।



थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02

अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 07.01.21 को लाल कुँआ पुल के नीचे थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभियुक्त (1) शक्ति व (2) गौरव को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 50 ग्राम नशीला पाउडर (अल्प्रोजल) नाजायज बरामद हुआ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कविनगर पर क्रमश मु0अ0सं0 20/21 धारा 8/21 NDPS ACT व मु0अ0सं0 21/21 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किये गये हैं।

अपराध कारित करने का तरीका:- अभियुक्त गण शातिर किस्म के अपराधी हैं जो अवैध नशीले पाउडर की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

(1) शक्ति पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राफर का किराए का मकान मुन्शी हरपाल कालोनी बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष शिक्षा अनपढ।

(2) गौरव पुत्र स्व0 उमेश निवासी भदोला थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष शिक्षा अनपढ।

बरामदगी का विवरण -

50 ग्राम नाउडर नाजायज

अभियुक्त गण का आपराधित इतिहास-

1-मु0अ0सं0 20/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद बनाम शक्ति

2-मु0अ0सं0 21/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद बनाम गौरव



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा जुए/सट्टे की खाई बाडी करने वाले 2 अभि0 गिरफ्तार, कब्जे से एक गत्ता, पर्चा सट्टा, पैसिल, व नगद 2950 रुपये बरामद।

दिनांक 07.01.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमानक्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक:07.01.21को समय 09.45 बजे गुरुद्वारे के सामने नारियल पानी के ठिये पर शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभि0 1. मौ0 फिरोज 2. जाकिर को मय एक गत्ता, पर्चा सट्टा, पैसिल, व नगद 2950 रुपये सहित गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 गण उपरोक्त ने पूछताछ मे बताया कि साहब हम लोग जुए/सट्टे की खाई बाडी करते हैं जिसके संबध मे थाना साहिबाबाद पर मु0अ0सं0 22/21 धारा 13 जी एक्ट बनाम मौ0 फिरोज व जाकिर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मौ० फिरोज पुत्र मौ० मुजाहिर नि० गुरुद्वारे के पास 825 प्लाट शालीमार गार्डन एक्स 1 थाना साहिबाबाद गा०बाद उम्र 32 वर्ष

2. जाकिर पुत्र जावीर अली नि० गली नं० 1 पप्पू कालोनी अनीश धोबी के मकान मे किरायेदार थाना साहिबाबाद गा०बाद उम्र 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1. मु०अ०स० 22/21 धारा 13 G एक्ट बनाम मौ० फिरोज पुत्र मौ० मुजाहिर उपरोक्त

बरामदगी का विवरण:-

एक गत्ता, पर्चा सट्टा, पैसिल, व नगद 2950 रुपये



दिनांक 07 .01.2021

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 170 ग्राम नशीला पाऊंडर एल्प्राजोलम व 6 टेबलेट नशीली एल्प्राजोलम व 60 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ तीन अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 06.01.2021 को रात्रि चैकिंग के दौरान तीन शातिर अपराधी 1. अंकित 2. सद्दाम 3. करन को नशीला पाऊंडर एल्प्राजोलम व 6 टेबलेट नशीली एल्प्राजोलम व 60 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज के साथ शनि मन्दिर तिरोहा के पास थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता

- 1- अंकित S/O कैलाश उम्र 23 वर्ष निवासी म०नं० 3 गली नं० 1 लाल क्वाटर बिहारीपुरा थाना विजयनगर गा०बाद
- 2- सद्दाम S/O हसनद्दीन उम्र 24 वर्ष निवासी झुग्गी झोपड़ी चांदमारी थाना विजयनगर गा०बाद
- 3- करन S/O अजय उम्र 23 वर्ष निवासी लेवर चौक झुग्गी सैक्टर 12 प्रताप विहार थाना विजयनगर गा०बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

- 1- मु.अ.स. 19/21 धारा 8/22 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम अंकित
- 2- मु.अ.स. 20/21 धारा 60/63 Ex. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम सद्दाम
- 3- मु.अ.स. 21/21 धारा 60/63 Ex. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम करन

बरामदगी का विवरण

1. 170 ग्राम नशीला पाऊंडर एल्प्राजोलम व 6 टेबलेट नशीली एल्प्राजोलम अभि० अंकित से
2. 30 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का अभि० सद्दाम से
3. 30 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का अभि० करन से



जहरखुरानी कर वाहन लूट करने वाले गैंग के 06 अभियुक्तगण मय लूट की एक बुलैरो पिकप व एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार

श्रीमान कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस पर दिनांक 05.01.21 को बुलैरो पिकअप गाडी सं0 DL1LY 5053 के ड्राईवर की जहर खुरानी कर बुलैरो पिकअप ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 13/21 धारा 392,328, भादवि पंजीकृत किया गया था । उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 07-01-21 खडकडी रोड घिटोरा मोड के पास से समय 4.35 बजे की घटना कारित करने वाले निजाम आदि 06 नफर अभियुक्तगण को मय लूटी हुई एक बुलैरो पिकअप बरामद की गयी व अभियुक्त निजाम से नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर सभी अभि0गण को सम्बन्धित मु0अ0सं0 13/21 धारा 392,328,411,414 भादवि में व मु0अ0सं0 15/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम निजाम को जेल भेजा गया ।

अपराध का तरीका- अभियुक्तगण द्वारा दो टीम बनाकर अपराध करना एक टीम द्वारा जहर खुरानी कर वाहन लूट कर अपने साथियो/दूसरी टीम को ले जाकर देना दूसरी टीम द्वारा लूट के वाहन ले जाकर हरियाणा मेवात क्षेत्र में बेच/कटवा देना

पूछताछ का विवरण -अभियुक्त निजाम ने पूछने पर बताया कि मैंने व मेरे दो अन्य साथी फिरोज व नूरुद्दीन द्वारा बुलैरो पिकअप गाडी सं0 DL1LY 5053 बुक करके दिनांक 5-01-21 को पंचलोक के पास ट्रॉनिका सिटी नशीली गोली खिलाकर ड्राईवर को वही फेंककर वाहन लेकर चले गये थे जिसको मैंने अपने अन्य साथियों बिलाल ,नियाज ,दिलशाद को दे दी थी । हम आज लूटे वाहन को बेचने के लिए आये थे जहाँ पुलिस द्वारा हम लोगो को पकड लिया गया। हम इन वाहनों को मेवात हरियाणा क्षेत्र में सस्ते दामों में बेचकर/कटवा कर आर्थिक लाभ प्राप्त करते है तथा अपना जीवन यापन करते है ।

नाम पता गिरफ्तार अभि0/आपराधिक इतिहास -1.नबाब पुत्र यूसुफ निवासी गंगेरू थाना कांधला शामली

2-नियाज मौ0 पुत्र दलबीर निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रॉनिका सिटी गा0वाद

3-दिलशाद पुत्र मुस्तफा निवासी हींड थाना भवन शामली हाल पूजा कालौनी थाना ट्रॉनिका सिटी

गा0बाद 4-फिरोज पुत्र नसरुद्दीन निवासी चेरौडी थाना लोनी गा0बाद हाल-दौलत नगर थाना ट्रॉनिका सिटी गा0बाद

5-नूरुद्दीन पुत्र नसीर अहमद निवासी बुलन्द मस्जिद ठेका बी-320गली नं0-2 शास्त्री पार्क दिल्ली

6-निजाम उर्फ बिलाल पुत्र बाबू अकरम निवासी सोम बाजार पूजा कालौनी थाना ट्रोनिा सिटी
गा0बाद

बरामदगी का विवरण-

1- एक बुलैरो पिकअप गाडी सं0 DL1LY 5053 सम्बन्धित मु0अ0सं0 13/21 धारा 392,328,411,414
भादवि,

2- निजाम उर्फ बिलाल पुत्र बाबू अकरम निवासी सोम बाजार पूजा कालौनी थाना ट्रोनिा सिटी
गा0बाद से एक अदद चाकू सम्बन्धित मु0अ0सं0 15/21 धारा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट,



थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 06.01.2021 को ग्राम बसन्तपुर सैथली में अपने भाई पर लाईसेंसी रिवाल्वर से गोली चलाने वाला अभियुक्त मय लाईसेंसी रिवाल्वर व खोखा मय जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार)

कार्यवाही:- श्रीमानजी कल दिनांक 06.01.2021 को समय करीब 02.00 बजे ग्राम बसन्तपुर सैथली थाना मुरादनगर, गाजियाबाद में अनुपम त्यागी पुत्र स्व0 कृष्णदत्त त्यागी नि0 ग्राम बसन्तपुर सैथली थाना मुरादनगर, गाजियाबाद ने अपने ही परिवार के चचेरे भाई सुशील त्यागी पुत्र ईश्वरचन्द त्यागी व अनिल त्यागी पुत्र ईश्वर चन्द त्यागी के ऊपर फायरिंग की थी जिसमें उक्त दोनों व्यक्ति घायल हो गये थे। उक्त संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 12/2021 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत कर लिया गया। घटना से संबंधित वाक्यात इस प्रकार है कि कल दि0 06.01.2021 को सुबह करीब 02.00 बजे अनुपम त्यागी की माँ दयावती त्यागी की मृत्यु हो गयी थी, जिनकी उम्र करीब 85 वर्ष थी जब अनुपम त्यागी व उसके रिश्तेदार व गांव के अन्य लोग दाह संस्कार करने के बाद हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार अनुपम त्यागी के घर पर बैठ गये थे तथा कुछ लोग बाहर खडे होकर बातें करने लगे थे। इसी बात के कारण अनुपम त्यागी ने उसके घर के बाहर खडे ईशान्त त्यागी व अन्य लोगों को कहा कि मेरे परिवार में तो मौत हो गयी है और तुम यहां पर गप्पे मार रहे हो और अचानक से गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर कर दिये। जिसमें सुशील व अनिल घायल हो गये थे और अभियुक्त अनुपम त्यागी उपरोक्त फरार हो गया था। जिसके सम्बन्ध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक/प्रभारी निरीक्षक श्री सरवणन टि (I.P.S) के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरार अभियुक्त अनुपम त्यागी उपरोक्त को आज दिनांक 07.01.2021 को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लाईसेंसी रिवाल्वर 32 बोर मेड इन कानपुर मय 04 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुये। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

अनुपम पुत्र कृष्णदेव त्यागी निवासी बंसतपुर सैथली थाना मुरादनगर गाबाद0

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 12/2021 धारा 307/504 भादवि थाना मुरादनगर गा0बाद

बरामदगी

एक लाईसेंसी रिवाल्वर 32 बोर मेड इन कानपुर

04 खोखा तथा 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर

